

संख्या— /ई-18783 / XIII-1 / 2024

प्रेषक,

आनन्द स्वरूप  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, आई0टी0डी0ए0,  
आई0टी0 भवन, सहस्त्रधारा रोड़,  
आई0टी0 पार्क, देहरादून।

**कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक जुलाई 2024**

**विषय:-विभागीय कार्यों को पूर्णरूप से ई-ऑफिस के माध्यम से सम्पादित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0-226551, दिनांक 23 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन विभागों के विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्यों का सम्पादन पूर्णरूप से ई-ऑफिस के माध्यम से किये जाने तथा जिन विभागों में विभागीय कार्यों का सम्पादन आतिथि ई-ऑफिस के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, वे आई0टी0डी0ए0 से सम्पर्क स्थापित कर समस्त विभागीय कार्यों का सम्पादन पूर्णरूप से ई-ऑफिस के माध्यम से करेंगे, के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन विभागों के विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्यों का सम्पादन पूर्णरूप से ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु प्राथमिकता पर सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

(आनन्द स्वरूप)  
अपर सचिव।

**संख्या: /ई-18783 / XIII-1 / 2024 / तददिनांकित।**

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
5. कुलपति, उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी, कृषि विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
6. कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
7. निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसन्धान, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, जड़ी-बूटी शोध संस्थान गापेश्वर, चमोली।
9. निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी परिसर हल्दी, ऊधमसिंहनगर।
10. निदेशक, चाय विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड।
11. प्रबन्धन निदेशक, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड उत्तराखण्ड।
12. प्रबन्धन निदेशक, बीज प्रमाणीकरण अभिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी वैज्ञानिक कैप, सेलाकुई।
14. प्रबन्ध निदेशक, जैविक उत्पाद परिषद्, उत्तराखण्ड।
15. प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम हल्दी।

आज्ञा से,

(महिमा रौकली)  
संयुक्त सचिव।

